



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118]  
No. 118]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 2005/माघ 15, 1926  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2005/MAGHA 15, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2005

(आय-कर)

का.आ. 167(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-झक(7) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तौसरा संशोधन) नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 18खखख में,—

(क) शीर्षक में, “ धारा 80-झख” शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “ धारा 80-झख या धारा 80झग” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (1) में, “ या धारा 80-झख की उपधारा (7ख) में यथापरिभाषित कन्वेन्शन केन्द्र” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “ या धारा 80-झख की उपधारा (11ख) में यथापरिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपनियम (2) में, “ या धारा 80-झख” शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “ या धारा 80-झग” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

3. आय-कर नियम, 1962 की परिशिष्ट-2 में, प्ररूप संख्या 10गगख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ प्ररूप सं. 10गगख

(नियम 18खखख देखिए)

1. निर्धारिती का नाम :.....
2. स्थायी लेखा सं. :.....
3. प्रारिथिति :.....
4. उपक्रम/उद्यम के स्वामित्व की प्रारिथिति
 

(क) क्या निर्धारिती का संपूर्ण स्वामित्व है	हां	नहीं
(ख) क्या निर्धारिती का भागतः स्वामित्व है	हां	नहीं

 यदि हां, तो कृपया स्वामित्व की प्रतिशतता विनिर्दिष्ट करें :.....
5. पता :.....
6. धारा 80-इक, 80-इख या 80-इग के अधीन कटौती के लिए पात्र उद्यम या उपक्रम का नाम :.....
7. आय-कर अधिनियम, 1961 की वह धारा और :.....
 

उपधारा जिसके अधीन कटौती का दावा किया जा रहा है
8. उपक्रम या उद्यम द्वारा प्रचालन/क्रियाकलाप के प्रारंभ की तारीख :.....
9. वह प्रारंभिक निर्धारण वर्ष जब से कटौती :.....
 

का दावा किया जा रहा है ।
10. कटौती का दावा करने वाले उद्यम/उपक्रम का पता :.....
 

(जिला और राज्य सहित)
11. उत्पाद शुल्क/सेवा-कर रजिस्ट्रीकरण सं. और :.....
 

वह कार्यालय जहां रजिस्ट्रीकृत है ।
12. विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण सं. और :.....
 

वह कार्यालय जहां रजिस्ट्रीकृत है ।
13. वह स्थानीय/राज्य प्राधिकारी जिससे अनुमोदन :.....
 

लिया गया है (अनुमोदन की एक प्रति संलग्न करें)

**धारा 80-इक के अधीन पात्र कारोबार**

14. अवसंरचना सुविधा का विकास, प्रचालन, अनुरक्षण :

(क) अवसंरचना सुविधा के संबंध में

क्या उद्यम (कृपया ✓ लगाएं) :-

—अवसरंचना सुविधा का विकास करती है,

—प्रचालन और अनुरक्षण करती है,

--विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करती है।

(ख) कृपया अवसंरचना सुविधा की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें \*\*\* .....

(जैसे - सड़क, पुल, रेलप्रणाली, पत्तन आदि)

[ धारा 80इक(4)(i) का स्पष्टीकरण ]

(ग) क्या अवसंरचना सुविधा का प्रचालन                    हाँ                    नहीं

और अनुरक्षण केन्द्रीय/राज्य सरकार/

स्थानीय प्राधिकारी/किसी अन्य कानूनी

निकाय के साथ करार के अनुसार अपने

विकासकर्ता से अंतरण पर प्राप्त हुआ है ।

(घ) यदि हां, तो कृपया उस पहले वर्ष को विनिर्दिष्ट करें जिसके लिए

विकासकर्ता द्वारा धारा 80-झक के अधीन कटौती का दावा किया

गया था (विकासकर्ता के प्ररूप 10गगख की प्रति संलग्न करें) : .....

15. दूर संचार सेवा प्रदान करना : हां नहीं

(क) कृपया दूर संचार सेवा की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें : .....

(जैसे मूलभूत दूर संचार सेवा, सेल्युलर सेवा आदि [ धारा 80-झक(क)(ii)])

16. औद्योगिक पार्क/विशेष आर्थिक जोन का विकास, प्रचालन, अनुरक्षण

(क) औद्योगिक पार्क/विशेष आर्थिक जोन के संबंध में,

क्या उपक्रम (कृपया ✓ लगाएं) :-

—किसी औद्योगिक पार्क/विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है

--विकास और प्रचालन करता है,

—अनुरक्षण और प्रचालन करता है

(ख) औद्योगिक पार्क/विशेष आर्थिक जोन का नाम और पता : .....

(ग) क्या औद्योगिक पार्क/विशेष आर्थिक जोन का प्रचालन

और अनुरक्षण उसके विकासकर्ता से अंतरण पर प्राप्त हुआ है : हां नहीं

(घ) यदि हां, तो विकासकर्ता द्वारा धारा 80-झक के

अधीन कटौती का दावा किए जाने का प्रथम वर्ष : .....

(विकासकर्ता के प्ररूप 10गगख की प्रति संलग्न करें)

17. विद्युत का उत्पादन, पारेषण, वितरण उपक्रम

(क) क्या उपक्रम विद्युत का उत्पादन करता है या

विद्युत का उत्पादन और वितरण करता है हां नहीं

(i) यदि हां, तो वह वर्ष उपदर्शित करें, जिसमें उद्यम

ने उत्पादन प्रारंभ किया है .....

(ख) क्या उद्यम विद्युत का पारेषण या वितरण करता है हां नहीं

(i) यदि हां, तो वह वर्ष उपदर्शित करें जिसमें नई पारेषण

या वितरण लाइन बिछाई गई थी .....

(ग) क्या पारेषण या वितरण लाइनों के विद्यमान नेटवर्क का

सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण किया गया है हां नहीं

यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करें -

(i) वह वर्ष जिसमें पारेषण या वितरण लाइनों के विद्यमान

नेटवर्क का सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण हुआ है .....

(ii) 1.4.2004 को संयंत्र और मशीनरी का बही मूल्य .....

(iii) नवीकरण और आधुनिकीकरण के वर्ष में संयंत्र और

मशीनरी में वृद्धि का मूल्य .....

#### धारा 80-झख के अधीन पात्र कारोबार

18. वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन या शीतागार संयंत्र के प्रचालन में लगे हुए औद्योगिक उपक्रम ।

(क) क्या औद्योगिक उपक्रम 11वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट

कोई वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करता है - हां नहीं

(कृपया उस वस्तु या चीज को विनिर्दिष्ट करें)

(ख) यदि हां, तो क्या विनिर्माण प्रक्रिया में विद्युत

का उपयोग किया जाता है -

हां

नहीं

(ग) विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों की सं. ....

(घ) क्या औद्योगिक उपक्रम कोई शीतागार प्रचालित करता है -

हां

नहीं

(ङ) यदि कंपनी एक लघु उपक्रम है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें -

हां

नहीं

(च) यदि उद्योग उत्तर-पूर्वी प्रदेश में अवस्थित है तो क्या उद्योग धारा

80-झख(4) के दूसरे परंतुक के अनुसार एक अधिसूचित उद्योग है

हां

नहीं

(छ) यदि उद्योग जम्मू-कश्मीर में अवस्थित है तो क्या यह तेरहवीं

अनुसूची के भाग 'ग' में विनिर्दिष्ट कोई वस्तु या चीज

उत्पादित या विनिर्मित करता है।

हां

नहीं

19. पोत का कारबार

(क) क्या पोत भारतीय कंपनी के स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा किए

जा रहे कारबार के लिए पूर्ण उपयोग किया जाता है

हां

नहीं

(ख) यदि पोत अंतरण पर अर्जित किया गया था तो क्या वह

भारतीय निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या उसका

भारतीय राज्य क्षेत्रीय जल में उपयोग किया गया था

हां

नहीं

20. होटल का कारबार

(क) क्या होटल निम्नलिखित में अवस्थित है

(i) पहाड़ी क्षेत्र

(ii) ग्रामीण क्षेत्र

(iii) तीर्थ स्थान

(iv) अन्य अधिसूचित क्षेत्र (कृपया विनिर्दिष्ट करें.....)

(v) उपरोक्त में से कोई नहीं (कृपया विनिर्दिष्ट करें.....)

(ख) क्या होटल आय-कर नियम 1962 के नियम 18खखग के

अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है

हां

नहीं

21. वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कारोबार

(क) क्या कारोबार नियम, 18घ के अधीन विहित प्राधिकारी

द्वारा अनुमोदित किया गया है

हां

नहीं

(कृपया अनुमोदन की प्रति संलग्न करें)

(ख) क्या यह आय-कर नियम के नियम 18घक में विहित

शर्तों को पूरा करता है

हां

नहीं

22. खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन या परिष्करण

(क) क्या उपक्रम खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन या

परिष्करण में लगा हुआ है

हां

नहीं

(ख) यदि हां, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें :

-- खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन

-- खनिज तेल का परिष्करण

23. आवासन परियोजनाओं का विकास और निर्माण

(क) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख : .....

(कृपया अनुमोदन की प्रति संलग्न करें यदि अनुमोदन

एक से अधिक बार अभिप्राप्त किया जाता है तो

भवन योजना के पहले अनुमोदन की प्रति संलग्न करें)

(ख) आवासन परियोजना के पूरा होने की तारीख : .....

(कृपया स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया

पूर्ण होने का प्रमाणपत्र संलग्न करें)

(ग) परियोजना की भूमि के प्लॉट का आकार : .....

(घ) क्या परियोजना दिल्ली या मुंबई या उनके

हां

नहीं

नगर पालिक क्षेत्र की सीमाओं से 25

किलोमीटर के भीतर है

(ङ) परियोजना के रिहायशी यूनिट का निर्मित क्षेत्र : .....

(च) परियोजना के भीतर स्थित दुकानों और अन्य : .....

वाणिज्यिक स्थापनों का निर्मित क्षेत्र

(छ) क्या परियोजना का कार्य बोर्ड द्वारा किसी तत्समयप्रवृत्त

हां

नहीं

अन्य विधि के अधीन गन्दीवस्ती क्षेत्रों के रूप में घोषित और

अधिसूचित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण/पुनःविकास के लिए केन्द्रीय/

राज्य सरकार द्वारा विरचित स्कीम के अनुसार किया गया है।

(कृपया केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना की एक प्रति

संलग्न करें)

(ज) कृपया अपनाई गई लेखाक्रम पद्धति विनिर्दिष्ट करें : .....

#### 24. अन्य कारोबार क्रिया कलाप

(क) क्या उपक्रम कृषि उत्पाद के लिए शीतागार सुविधा हां नहीं  
स्थापित करने या उसे प्रचालित करने के कारोबार में हुआ है.

(ख) क्या उपक्रम खाद्यानों के रखरखाव, भंडारण और हां नहीं  
परिवहन के एकीकृत कारोबार में लगा हुआ है

(ग) क्या उपक्रम फलों या सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण हां नहीं  
और पैकेजिंग के कारोबार में लगा हुआ है

#### 25. धारा 80-इग के अधीन पात्र कारोबार

(i) क्या उपक्रम या उद्यम बोर्ड द्वारा धारा 80-इग के हां नहीं  
प्रयोजनों के लिए अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित है

(ii) यदि हां, तो —

(क) उक्त निर्यात प्रसंस्करण जोन/ एकीकृत अवसंरचना .....  
विकास केन्द्र/ औद्योगिक उत्पादन केन्द्र / औद्योगिक पार्क/  
संपदा/ साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क/ औद्योगिक क्षेत्र/ थीम  
पार्क का नाम और उस जिले/ राज्य का नाम दें जिसमें वह  
अवस्थित है

(ख) उपक्रम या उद्यम की खसरा संख्या .....

(बोर्ड की अधिसूचना सं. भी उपदर्शित करें)

(ग) यदि पात्र कारोबार नया है तो कृपया वस्तु या चीज .....  
के उत्पादन या विनिर्माण के प्रारंभ की तारीख दें

(घ) यदि विद्यमान कारोबार में सारभूत विस्तार किया  
गया है तो कृपया निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करें,—

(i) सारभूत विस्तार की तारीख .....

(ii) संयंत्र और मशीनरी का उस पूर्व वर्ष की जिसमें .....

सारभूत विस्तार हुआ है, पहली तारीख को कुल बही मूल्य

(किसी वर्ष में अवक्षयण होने से पूर्व)

(iii) सारभूत विस्तार के वर्ष में संयंत्र और मशीनरी .....  
में बढ़ोतरी का मूल्य

(ड) क्या उपक्रम या उद्यम तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट ..... हां ..... नहीं  
किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करता है  
(यदि हां, तो कृपया उस वस्तु या चीज को विनिर्दिष्ट करें)

(च) क्या उपक्रम या उद्यम चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट ..... हां ..... नहीं  
किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करता है ।  
(यदि हां, तो कृपया उस वस्तु या चीज या संक्रिया को विनिर्दिष्ट करें)

26. धारा 80-झक(4)(ii) और (iv) / धारा 80-झख(3), (4), (5),

(7) और (11)/ धारा 80-झग के अधीन कटौती के दावा के लिए,

कृपया निम्नलिखित उपदर्शित करें :

(क) क्या उपक्रम या उद्यम का गठन पहले से विद्यमान ..... हां ..... नहीं  
कारोबार के विभाजन से या पुनर्संरचना से हुआ है ।

(ख) यदि हां, तो क्या धारा 33(ख) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियां .....  
और अवधि उपलब्ध है (कृपया ब्यौरा दें)

(ग) क्या उपक्रम या उद्यम को ऐसी कोई मशीनरी या ..... हां ..... नहीं  
संयंत्र अंतरण पर प्राप्त हुआ है जिसका पूर्व में किस प्रयोजन  
के लिए उपयोग किया जा रहा था

(घ) यदि हां, तो कृपया अंतरण पर प्राप्त मशीनरी या .....  
संयंत्र का मूल्य विनिर्दिष्ट करें

(ड) कारोबार में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र का कुल मूल्य .....

27. उपक्रम का कुल विक्रय : .....

28. किसी उपक्रम द्वारा निर्धारिती के संबद्ध समुत्थान या, : .....

निर्धारिती के अन्य उपक्रम या उपक्रम के सह-स्वामी,

या सह-स्वामी के अन्य उपक्रम के साथ संव्यवहार

(संबद्ध समुत्थान धारा 40क(2)(ख) के अर्थातर्गत व्यक्ति है)

संबद्ध समुत्थान का नाम

संव्यवहार

(कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)



- (क) ..... रु.  
 (ख) ..... रु.  
 (ग) ..... रु.  
 (घ) ..... रु.

29. पात्र कारबार से उपक्रम/उद्यम द्वारा अभिप्राप्त : .....

लाभ और अभिलाभ

30. धारा 80-झ/80-झक/80-झख/80-झग के अधीन कटौती : .....

(जो लागू न हो उसे काट दें)

### घोषणा

\*मैंने/हमने ..... नामक\*\* उपर्युक्त औद्योगिक उपक्रम या उद्यम का और जो निर्धारिती में 0 ..... (स्थायी लेखा सं 0 ..... ) ..... पर का है, के तुलन पत्र की और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम या उद्यम के लाभ और हानि लेखा की जांच कर ली है जो ..... स्थित मुख्य कार्यालय और ..... स्थित शाखाओं पर रखी गई लेखा बहियों के अनुरूप है।

\*मैंने/हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो \*मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए \*मेरी/हमारी राय में आवश्यक थे, पूर्वोक्त औद्योगिक उपक्रम या उद्यम और उनकी शाखाओं में जहां \*मैं/हम गया/गए थे, जहां तक बहियों की \*मेरी/हमारी जांच से प्रतीत होता है, समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं और अन्य शाखाओं से जहां \* मैं/हम नहीं गया था/गए थे नीचे दी गई टीका-टिप्पणी के अधीन रहते हुए, संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त समुचित विवरणियां प्राप्त हो गई हैं।

मेरी राय में उपक्रम धारा 80-झ/80-झक/80-झख/80-झग (जो लागू न हो उसे काट दें) में अनुबद्ध शर्तों को पूरा करती है और मद 30 में इस धारा के अधीन दावा की गई कटौती की रकम आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार है और अपेक्षित शर्तों को पूरा करती है।

\*मेरी/हमारी राय में और \*मेरे/हमारे सर्वोत्तम जानकारी तथा \*मुझे/हमें दी गई जानकारी के अनुसार उक्त लेखा,-

(i) तुलन पत्र के मामले में ..... को ऊपर नामित औद्योगिक उपक्रम या उद्यम के कार्यों की स्थिति का, और

(ii) लाभ और हानि लेखा के मामले में ..... को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए औद्योगिक उपक्रम या उद्यम के लाभ या हानि का, सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करता है।

स्थान .....

तारीख .....

393 GI/05-3

हस्ताक्षरित

लेखाकार\$

टिप्पण :

1. \* जो लागू न हो उसे काट दें ।
2. \*\* यहां नाम और पता दें ।
3. \*\*\* केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के साथ करार की एक प्रति संलग्न करे ।
4. # कृपया उपक्रम/उद्यम के लाभ और हानि लेखा और तुलन पत्र की एक प्रति संलग्न करे ।
5. & कृपया औद्योगिक पार्क/विशेष आर्थिक जोन के अनुमोदन की अधिसूचना की एक प्रति संलग्न करे ।
6. \$ यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है :-  
 (i) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट ; या  
 (ii) किसी राज्य के संबंध में कोई ऐसा व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के फलस्वरूप उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का हकदार है ।
7. जहां इस रिपोर्ट में कथित विषयों में से किसी विषय का उत्तर नकारात्मक है या सशर्त है तो रिपोर्ट में उसके कारणों का कथन किया जाएगा ।”

[ अधिसूचना सं. 43/2005/फा. सं. 142/41/2004-टीपीएल ]

चन्द्रजीत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम तारीख 26 मार्च, 1962 की अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए थे जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और ऐसा अंतिम संशोधन तारीख 7 जनवरी, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 36(अ) के तहत किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2005

### (INCOME-TAX)

**S.O. 167(E).**—In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 80-IA (7) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 2005.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 18BBB,-
  - (a) in the heading, for the word, figures and letters "section 80-IB", the words, figures and letters "80-IB or section 80-IC" shall be substituted.
  - (b) in sub-rule (1), after the words, brackets, figures and letters "sub-section (7B) of section 80-IB", the words, brackets, figures and letters "or hospitals in rural areas as defined in sub-section (11B) of section 80-IB" shall be inserted;
  - (c) in sub-rule (2), after the word, figures and letters "or 80-IB", the word, figures and letters "or 80-IC" shall be inserted.
3. In Appendix-II to the Income-tax Rules, 1962, for Form Number 10CCB, the following Form shall be substituted, namely:-

" FORM NO. 10CCB  
[See rule 18BBB]

1. Name of the assessee : .....
2. PAN : .....
3. Status : .....
4. Ownership status of the undertaking / enterprise:
 

(a) Fully owned by assessee	Yes	No
(b) Partly owned by assessee	Yes	No

 If yes, please specify the percentage of ownership : .....
5. Address : .....
6. Name of the enterprise or undertaking eligible for deduction under sections 80-IA, 80-IB or 80-IC : .....
7. Section and sub-section of the Income-tax Act, 1961, under which deduction is being claimed : .....
8. Date of commencement of operation/activity by the undertaking or enterprise : .....
9. Initial assessment year from when deduction is being claimed : .....

10. Address (with District and State) of the enterprise/undertaking claiming deduction : .....
11. Excise service tax registration number and office where registered : .....
12. Sales-tax registration number and office where registered : .....
13. Local/State authorities from whom approval is taken (attach copy of approval) : .....

### ELIGIBLE BUSINESS UNDER SECTION 80-IA

14. **Development, operation, maintenance of an infrastructure facility:**

- (a) With respect to the infrastructure facility, does the enterprise (please tick) :
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Develop,  |
| <input type="checkbox"/> | Operate and maintain,                                       |
| <input type="checkbox"/> | Develop, operate and maintain, the infrastructure facility. |

- (b) Please specify the nature of the infrastructure facility \*\*\* : .....

[e.g., road, bridge, rail system, port, etc.  
[Explanation to section 80-IA(4)(i)]]

- (c) Has the operation and maintenance of the infrastructure facility been received on transfer from its developer in accordance with the agreement with the Central/ State Government/local authority/ any other statutory body

Yes No

- (d) If yes, please specify the first year of claim of deduction under section 80-IA by the developer (Attach copy of Form 10CCB of developer) : .....

**15. Providing telecommunication services:**

- (a) Please specify the nature of telecom service : .....
- [e.g., basic telecom service, cellular service, etc. [Section 80-IA(4)(ii)]]

**16. Development, operation, maintenance of industrial park/SEZ**

- (a) With respect to the industrial park/SEZ, does the undertaking (please tick):
- ☐ Develop,  
☐ Develop and operate  
☐ Maintain and operate  
 an industrial park/SEZ
- (b) Name and address of the industrial park/SEZ : .....
- (c) Has the operation and maintenance of the industrial park/SEZ been received on transfer from its developer : Yes No
- (d) If yes, first year of claiming deduction under section 80-IA by the developer (Attach copy of Form 10CCB of developer) : .....

**17. Generation, transmission, distribution of power**

- (a) Does the undertaking generate power or generate and distribute power Yes No
- (i) If yes, indicate the year in which the undertaking has started generating power -----
- (b) Does the undertaking transmit or distribute power Yes No
- (i) If yes, indicate the year in which the new transmission and distribution lines were laid; -----

393 64/05-4

- (c) Has there been substantial renovation and modernization of the existing network of transmission or distribution lines Yes No  
If yes, please specify,-  
(i) the year in which the substantial renovation and modernisation of the existing network of transmission or distribution lines took place -----  
(ii) Book value of plant & machinery as on 1.4.2004 -----  
(iii) value of increase in the plant and machinery in the year of substantial renovation and modernisation -----

### ELIGIBLE BUSINESS UNDER SECTION 80-IB:

#### 18. Industrial undertakings engaged in manufacture or production of article or thing or operation of cold storage plant

- (a) Does the industrial undertaking manufacture or produce any article or thing specified in the Eleventh Schedule : Yes No  
(Please specify the article or thing. ....) .....
- (b) If yes, does the manufacturing process use power : Yes No
- (c) Number of workers employed in the manufacturing process : .....
- (d) Does the industrial undertaking operate any cold storage plant : Yes No
- (e) Please specify if the company is a small scale industrial undertaking : Yes No
- (f) If the industry is located in the North Eastern Region, is the industry a notified industry as per second proviso to section 80-IB(4)? : Yes No

- (g) If the industry is located in Jammu & Kashmir, does it manufacture or produce any article or thing specified in part 'C' of the Thirteenth Schedule? : Yes No

## 19. BUSINESS OF SHIP

- (a) Is the ship owned by an Indian company and wholly used for the business carried on by it : Yes No
- (b) If the ship was acquired on transfer, was the ship owned or used in Indian territorial waters by a person resident in India : Yes No

## 20. BUSINESS OF HOTEL

- (a) Is the hotel located in
- (i) Hilly area
  - (ii) Rural area
  - (iii) Place of pilgrimage
  - (iv) Other notified area (Please specify:.....)
  - (v) None of the above (Please specify:.....)
- (b) Is the hotel approved by the prescribed authority under rule 18BBC of the Income-tax Rules, 1962? Yes No

## 21. BUSINESS OF SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

- (a) Is the business approved by the prescribed authority under rule 18D? : Yes No  
(Please attach copy of approval)
- (b) Does it fulfil the conditions prescribed in rule 18DA of the Income-tax Rules? : Yes No

22. **COMMERCIAL PRODUCTION OR  
REFINING OF MINERAL OIL**

- (a) Is the undertaking engaged in the commercial production or refining of mineral oil?

Yes

No

- (b) If yes, please specify :

— Commercial production  
of mineral oil

— Refining of mineral oil

23. **DEVELOPING AND BUILDING  
HOUSING PROJECTS**

- (a) Date of approval by local authority : .....  
(Please attach copy of approval/  
if approval is obtained more than  
once, attach copy of first approval  
of the building plan)

- (b) Date of completion of the  
housing project : .....  
(Please attach copy of the comple-  
tion certificate issued by the local  
authority)

- (c) Size of plot of land of the project : .....

- (d) Is the project situated in Delhi or  
Mumbai or within 25 kilometres  
from their municipal limits Yes No

- (e) Built-up area of the residential  
unit of the project : .....

- (f) Built-up area of the shops and  
other commercial establishments  
situated in the project : .....

- (g) Whether the project is carried out in  
accordance with a scheme framed by



Central/State Government for re-construction/re-development of existing buildings in areas declared to be slum areas under any law in force and notified by the Board.

Yes

No

(Please attach a copy of CBDT's notification)

- (h) Please specify the method of accounting adopted : .....

## 24. OTHER BUSINESS ACTIVITIES

- (a) Is the undertaking in the business of setting up and operating a cold chain facility for agricultural produce

Yes

No

- (b) Is the undertaking in the integrated business of handling, storage and transportation of food grains

Yes

No

- (c) Is the undertaking in the business of processing, preservation and packaging of fruits or vegetables

Yes

No

## 25. Eligible business under section 80-IC:

- (i) Whether the undertaking or enterprise is located in an area notified by the Board for the purposes of section 80-IC

Yes

No

- (ii) If yes, please indicate,-

- (a) Name of the Export Processing Zone/  
Integrated Infrastructure Development Centre/  
Industrial Growth Centre/Industrial Park/  
Estate/Software Technology Park/Industrial  
Area/Theme Park and the District/State  
in which located

-----

- |     |  |       |    |
|-----|--|-------|----|
| (b) | Khasra No. of the undertaking or enterprise<br>(Also indicate the Board's Notification No.)  | ----- |    |
| (c) | If the eligible business is new, please give<br>the date of commencement of production<br>or manufacture of article or thing   | ----- |    |
| (d) | If the existing business has undertaken<br>substantial expansion, please specify,-   |       |    |
|     | (i) the date of substantial expansion  | ----- |    |
|     | (ii) The total book value of plant and<br>machinery (before taking depreciation<br>in any year) as on first day of the<br>previous year in which substantial<br>expansion took place.      | ----- |    |
|     | (iii) Value of increase in the plant and<br>machinery in the year of substantial<br>expansion.   | ----- |    |
| (e) | Does the undertaking or enterprise<br>manufacture or produce any article<br>or thing specified in the Thirteenth Schedule<br>(If yes, please specify the article or thing)                 | Yes   | No |
| (f) | Does the undertaking or enterprise<br>manufacture or produce any article<br>or thing specified in the Fourteenth Schedule<br>(If yes, please specify the article or thing or<br>operation) | Yes   | No |
26. For claim of deduction u/s 80-IA(4)(ii) & (iv)/  
80-IB(3), (4), (5), (7) & (11)/80-IC, please indicate:
- |     |   |       |    |
|-----|---|-------|----|
| (a) | Whether the undertaking or enterprise has<br>been formed by the splitting up or the re-<br>construction of a business already in existence. | Yes   | No |
| (b) | If yes, whether the circumstances and<br>the period specified in section 33B is<br>applicable. (Please give details)                        | ----- |    |

- (c) Has the undertaking or enterprise received any machinery or plant on transfer which was previously used for any purpose Yes      No
- (d) If yes, please specify value of machinery or plant received on transfer : .....
- (e) Total value of machinery or plant used in business : .....

27. Total sales of the undertaking : .....

28. Transactions by the undertaking to a related concern of the assessee, or another undertaking of the assessee, or the co-owner of the undertaking, or another undertaking of the co-owner:

[Related concern is a person within the meaning of section 40A(2)(b)]

Name of the Related Concern

Transaction  
(Please specify Nature and Amount)

- |           |          |
|-----------|----------|
| (a) ..... | Rs. .... |
| (b) ..... | Rs. .... |
| (c) ..... | Rs. .... |
| (d) ..... | Rs. .... |

29. Profits and gains derived by the Undertaking/enterprise from the Eligible business# : .....

30. Deduction under section 80-I/  
80-IA/80-IB/80-IC : .....  
(Strike out whichever is not applicable).

## Declaration

\*I/We have examined the balance sheet of the above industrial undertaking or enterprise styled\*\* .....and belonging to the assessee M/s.....(Permanent Account No.....) as at .....and the profit and loss account of the said industrial undertaking or enterprise for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained at the head office at .....and branches at .....

\*I/We have obtained all the information and explanations which to the best of \*my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit, in \*my/our opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the industrial undertaking or enterprise aforesaid visited by \*me/us so far as appears from \*my/our examination of books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by \*me/us, subject to the comments given below:

In \*my/our opinion the undertaking or enterprise satisfies the conditions stipulated in section 80-I/80-IA/80-IB/80-IC (strike out whichever is not applicable) and the amount of deduction claimed under this section in item 30 is as per the provisions of the Income-tax Act and meets the required conditions.

In \*my/our opinion and to the best of \*my/our information and according to explanations given to \*me/us, the said accounts give a true and fair view-

- (i) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named industrial undertaking or enterprise as at.....; and
- (ii) in the case of the profit and loss account, of the profit or loss of the industrial undertaking or enterprise for the accounting year ending on.....

Place.....

Date.....

.....

Signed  
Accountant\$

## Notes:

1. \*Delete whichever is not applicable.
2. \*\*Here give name and address.
3. \*\*\*Furnish a copy of the agreement with the central Government or state government or local authority.

4. #Please provide profit & loss account and balance sheet of undertaking/enterprise.
5. #Please provide the notification of approval of the industrial park/SEZ.
6. \$This report is to be given by-
  - (i) a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or
  - (ii) any person who, in relation to any State, is, by virtue of the provisions sub-section (2) of section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), entitled to be appointed to act as an auditor of companies registered in that State.
7. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative or with qualification, the report shall state the reasons therefor.”

[Notification No. 43/2005/F. No. 142/41/2004-TPL]

CHANDRAJIT SINGH, Under Secy.

**Note :—**The principal rules were published *vide* notification No. S.O. 969(E) dated the 26th March, 1962 which has been amended from time to time, the last such amendment was made *vide* notification No. S.O. 36(E), dated the 7th January, 2005.

393 41/05-6